

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04032023-244149
SG-DL-E-04032023-244149असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2023/ फाल्गुन 12, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 509
No. 69]	DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2023/ PHALGUNA 12, 1944	[N. C. T. D. No. 509

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIभूमि एवं भवन विभाग
(भूमि अधिग्रहण शाखा)
अधिसूचना

दिल्ली, 3 मार्च, 2023

सं. फा. 9(7)/एल एंड बी/एल.ए/2016/7714.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं० एस०ओ० 2740 (ई) एवं दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना एस.ओ. 2004 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 3 के उप-नियम (1) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु दक्षिण-पश्चिम राजस्व जिले के ग्राम भरथल में अधियाचन विभाग अर्थात् दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क निर्माण हेतु पहले ही उपयोग की गई भूमि का अधिग्रहण करने का प्रयोजन रखते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि में ग्राम भरथल की राजस्व संपदा में खसरा नं. 4/ /21 पर मापे जाने वाले क्षेत्र

2 बीघा 4.5 बिस्वा, का 0.1876 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है। मानव पारिस्थितिकी विद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लोथियन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 को दिनांक 3/3/2023 की अधिसूचना सं0फा0 9(7)/एल एंड बी/एल.ए/2016/7703 के द्वारा पूर्वोक्त भूमि के संबंध में सामाजिक प्रभाव आंकलन का अध्ययन करने के लिए सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

आगे, सामाजिक प्रभाव आंकलन का मुख्य उद्देश्य आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण तथा जन-सुनवाई के लिए हित धारकों तथा जनता से परामर्श करना है। सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तथा सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के लिए समयावधि इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में जारी होने की तिथि से छह माह होगी तथा इसे प्रभावी क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर एवं जिला कलेक्टर (दक्षिण-पश्चिम), कापसहेड़ा, नई दिल्ली-110037 के कार्यालय में, जैसी भी स्थिति हो, वेबसाइट, पोस्टर, सूचना-पत्र एवं जन-सुनवाई के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अजय कुमार गम्भीर, उप-सचिव

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(Land Acquisition Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd March, 2023

F. No. 9(7)/L&B/LA/2016/7714.—In exercise of powers conferred by sub section (1) and (2) of section 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) read with sub-rule (1) of rule 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014, read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O.2740 (E) dated 21st October 2014, read with S.O. 2004 (E) dated 21st July 2015, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, intends to acquire land for public purpose, which has already been utilized in road by requisitioning department i.e. Delhi Development Authority in village Bharthal of South West revenue district. The land to be acquired for this purpose is 0.1876 Hectare of Khasra No.4//21 measuring 2 Bigha 4.5 Biswa of revenue estate of Village Bharthal. The School of Human Ecology, Ambedkar University, Lothian Road, Kashmere Gate, Delhi-110006 has been assigned as Social Impact Assessment Unit to carry out social impact assessment study in relation to aforesaid land vide Notification no. 9(7)/L&B/LA/2016/7703 dated 3/3/2023

Further, the main objectives of Social Impact Assessment are consultation with stake holders and public, survey and public hearing wherever required. The time period for Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan will be six months from date of publication of this notification in the official gazette and same will be disclosed by the way of websites, posters, leaflets and public hearing as the case may be at the conspicuous places in affected areas, and in the office of District Collector (South West), Kapashera, New Delhi 110037.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,
National Capital Territory of Delhi,
AJAY KUMAR GAMBHIR, Dy. Secy.